



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 1984/चैत्र 3, 1906

No. 129]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 1984/CHAITRA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

का.आ.190(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर 23-3-1984 से राजस्थान राज्य में बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि राजस्थान राज्य के बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-34/83-आर. आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd March, 1984

S.O. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Re-

1600 GI/83

gional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, on being requested so to do by Bank of Baroda establishes with effect from 23-3-1984 a Regional Rural Bank in the State of Rajasthan under the name of Bundi-Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the Districts of Bundi and Chittorgarh in the State of Rajasthan.

[No. F. 1-34/83-RRB(I)]

का. आ. 191(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ बड़ौदा से परामर्श करके, बूंदी को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-34/83-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 191(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda by

(1)

which Bundi-Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Bundi as the place where Bundi-Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-34/83-RRB(II)]

का. आ. 192(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिवृष्टित करती है।

[संख्या एफ. 1-34/83-आर. आर. बी. (3)]

S.O. 192(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Bundi-Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank, Bundi being an institution established under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-34/83-RRB(III)]

का.आ.193(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डा. पी. पी. शर्मा को बूंदी-चित्तौड़गढ़ ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 23-3-1984 से प्रारम्भ होकर 31-3-1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान डा. पी. पी. शर्मा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-34/83-आर. आर. बी. (4)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 193(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Dr. P. P. Sharma, as Chairman of the Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank, Bundi and specifies the period commencing on the 23-3-1984 and ending

with the 31-3-1987 as the period for which the said Dr. Sharma shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-34/83-RRB(IV)]

ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 23 मार्च, 1984

का. आ. 194(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

“बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी (राजस्थान)”।

[आर. पी. सी. डी. संख्या 281/आई.

एन. सी. एस.-311-84]

टी. एन. अनन्तराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

(Rural Planning and Credit Department)

NOTIFICATION

Bombay, the 23rd March, 1984

S.O. 194(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :—

“Bundi-Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank, Bundi (Rajasthan)”.

[Ref. RPCD. No. 281/INCL-311-84]

T. N. ANANTHARAM IYER,
Executive Director.